

### Newgen Software Technologies Limited CIN: L72200DL1992PLC049074

E-44/13, Okhla Phase-II, New Delhi-110 020, INDIA Tel: +91-11-4653 3200 Fax : +91-11-2638 3963 Email: corpmktg@newgensoft.com URL: https://newgensoft.com

Date: August 3, 2018

To,	To,			
BSE Limited	National Stock Exchange of India Limited			
Phiroze Jeejeebhoy Towers,	Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,			
Dalal Street,	Bandra- Kurla Complex			
Mumbai – 400001	Bandra (E), Mumbai – 400051			
Ref.: Newgen Software Technologies Limited (NEWGEN/INE619B01017) Scrip Code - 540900	Ref.: Newgen Software Technologies Limited (NEWGEN/INE619B01017)			

### Sub.: Financial Results- Newspaper Advertisement

Dear Sir/ Ma'am,

Please find enclosed the copy of advertisements published in Economic Times (Regional-Hindi & All edition-English) dated August 3, 2018, in relation to Un-Audited Standalone and Consolidated Financial results of the Company for the 1<sup>st</sup> Quarter ended June 30, 2018.

This is for your kind information and record.

Thanking you.

For Newgen Software Technologies Limited Techno .4818 'Aman Mourya **Company Secretary & Compliance** 

Encl.: a/a

### THE ECONOMIC TIMES नई दिल्ली शुक्रवार 3 अगस्त 2018

# फाइनेशियल क्रेडिटर्स ने किया दावा

करेगी जिन्हें कमर्शियल यज के लिए वेचा जा सकता है।' डीपीई ने संबंधित मंत्रालयों से घाटे में चल रहीं कंपनियों पर मकदमे की जानकारी संबंधित मंत्रालयों से मांगी है ताकि उन्हें बंद करने की प्रक्रिया आगे बढाई जा सके। अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर सेंटल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (सीपीएसई) ने चेल और अचल संपत्ति की जानकारी डिपार्टमेंट को दे दी है। डीपीई ने इन कंपनियों से लीज होल्ड लैंड की डिटेल भी मांगी है। उनसे पूछा गया है कि जमीन को कव राज्य सरकार को वापस लौटाने की बात कही गई है। एनबीसीसी के अधिकारी ने बताया, 'कछ सरकारी कंपनियों ने हमसे लैंड मैनेजमेंट एजेंसी बनने के लिए संपर्क किया था। अगर सरकार इन कंपनियों के जमीन को पल करके दसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करती है तो हम उससे अधिक से अधिक रिटर्न हासिल करने पर काम कर सकते हैं।

## इंडस्टी का अनुरोध सोलर प्रोजेक्ट्स पर GST के पंगे को सुलझाए सरकार

दीपशिखा सिकरवार | नई दिल्ली देश की सोलर इंडस्ट्री ने सरकार से सोलर प्रोजेक्ट्स पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) रेट को लेकर स्थिति जल्द स्पष्ट करने का निवेदन किया है। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (AAR) ने इन प्रोजेक्ट्स पर 5 पसेंट के बजाय 18 पसेंट का टैक्स लगाने का फैसला दिया था, जिससे इंडस्ट्री की मुश्किलें बढ गई है।

इससे टैरिफ को लेकर उसकी पूरी फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल को भी GST रेट का पक्ष लिया गया था। इन कैलकुलेशन बदल सकती है। इससे ज्ञापन दिया है।

की योजना को भी झटका लगा सकता पहुंचने के लिए लागू टैक्स को लेकर पर इक्विपमेंट के समान 5 पर्सेंट का है। इंडस्ट्री की समस्या का बड़ा कारण स्थिति स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। टैक्स लगाने का फैसला दिया था। पुराने सोलर पावर जेनरेटिंग सिस्टम पर लागू टैक्स स्टूक्चर स्पष्ट न होने से सोलर टैक्स सिस्टम में सोलर पावर सेक्टर को 5 पर्सेंट का छट वाला GST रेट है, टैरिफ पर असर पड़ रहा किया गया है।

डिवेलपर्स एसोसिएशन (SPDA) ने प्रोजेक्ट्स के फायदे में फाइनेंस सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया को रहने को लेकर आशंका दिए ज्ञापन में कहा है कि व्याख्या में बढ़ गई है।' SPGS पर टेक्स को लेकर प्रतीक जैन ने कहा, 'इस मुद्दे को एक अंतर और इस मुद्दे पर अलग एडवांस एडवांस रूलिंग्स के लिए विभिन्न राज्यों संशोधन या स्पष्टीकरण के जरिए जल्द रूलिंग्स को लॉ कमेटी को जांच करनी को अयॉरिटीज ने अलग-अलग राय दी सलझाने की जरूरत है जिससे सोलर चाहिए और इस मामले को 4 अगस्त को है। इससे सोलर इंडस्ट्री के लिए भ्रम की इक्विपमेंट और पाटर्स पर 5 पर्सेंट की होने वाली GST काउंसिल की मीटिंग स्थिति और वढ़ गई है। महाराष्ट्र की दर से टैक्स लगाया जाए।



फैसलों में सोलर इंस्टॉलेशन को एक पुरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 2022 तक SPDA के डायरेक्टर जनरल, शेखर वर्क कॉन्ट्रैक्ट माना गया था 100 गीगावॉट की रिन्युएवल कैपेसिटी दत्त ने कहा, 'सही कॉस्ट और टैरिफ पर कनांटक की अथॉरिटी ने इंस्टॉलेशन

एक्साइज, कस्टम्स और लेकिन कानून में सोलर पावर जेनरेटिंग है और विभिन्न राज्यों अयॉरिटी फॉर एडवांस वैल्यू एडेड टैक्स के तहत सिस्टम (SPGS) को परिभाषित नहीं की अर्थोरिटीज की हाल रुल्लिंग्स (AAR) ने इन छट मिलती थी। सोलर की एडवांस रूलिंग्स से प्रोजेक्टस पर 5 पर्सेंट पावर डिवेलपर्स का कहना परिभाषा न होने से भ्रम की स्थिति टैक्स का बोझ बड़ा है के बजाय 18 पर्सेंट का है कि मौजदा स्थिति से पैदा हुई है और SPGS के अर्थ और क्योंकि ये कानून में दिए टैक्स लगाने का फैसला सोलर इंडस्ट्री को नुकसान इस पर टैक्स को लेकर अलग-अलग गए 5 पसेंट के टैक्स के दिया था. जिससे इंडस्टी हो रहा है और इस मदे का व्याख्या की जा रही है। सोलर पावर अनुसार नहीं हैं। इससे की मुश्किलें बढ़ गई हैं जल्द हल निकालने की जरूरत है। PwC के लीड

(इनडायरेक्ट टैक्सेज),

'इनसॉल्वेंसी पर RCom की याचिका खारिज करे SC'

एरिक्सन ने कहा, इनसॉल्वेंसी प्रोसेस रोकने पर ₹550 करोड़ का सेटलमेंट एमाउंट मिलने में कोई गारंटी नहीं रहेगी

#### सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड न्युजेन CIN: 17220001 1992PL C049074

पंजीकृत कार्यालयः ए-6, सत्संग बिहार मार्ग, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110067 ई—मेल: investors@newgensott.com URL: https://newgensott.com,फोन: (+91)-11-40770100, 11-26963571, फैक्स: (+91)-11-26856936

30 जन, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित तथा एकल अलेखापरीक्षत वित्तीय परिणामों का सार

देश दुनिया

क्र स	विवरण	समेकित				एकल			
		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
		30 जून, 2018 (अलेखापरीक्षत)	31 मार्च, 2018 (लेखापरीक्षत)	30 जून, 2017 (अलेखापरीक्षत)	31 मार्च, 2018 (लेखापरीक्षत)	30 जून, 2018 (अलेखापरीक्षत)	31 मार्च, 2018 (लेखापरीक्षत)	30 जून, 2017 (अलेखापरीक्षत)	31 मार्च, 2018 (लेखापरीक्षत)
1	प्रचालनों से कुल आय	10,647.42	18,382.76	8,859.26	51,242.78	9,111.87	18,382.76	7,804.74	45,952.36
2	अवधि के लिए निवल लाम / (हानि) (कर अपवादात्मक और / या अतिविशिष्ट मदों से पूर्व)	493.40	7,593.64	(194.36)	9,413.25	290.95	7,278,91	(344.59)	9,093.18
3	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाम / (हानि) (अपबादात्मक और / या अतिविशिष्ट मदों के बाद)	493.40	7,593.64	(194.36)	9,413.25	290.95	7,278.91	(344.59)	9,093.18
4	कर पश्चात अवधि के लिए निवल लाम/(हानि) (अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों के बाद)	386.73	5,945.62	(149.66)	7,288.68	226,94	5,705.50	(270.09)	7,063.09
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाम / (हानि) (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल]	403.37	5,959.08	(118.54)	7,370.99	243.58	5,718.96	(238.97)	7,145.40
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अकित मूल्य रु. 10 प्रत्येक)	6,798.76	6,788.41	6,276.09	6,788.41	6,798,76	6,788.41	6,276,09	6,788.41
7	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोडकर) पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में दर्शाये गये अनुसार	-			33,733.85	-			33,182.81
8	प्रति शेयर अर्जन (रु. 10 / – प्रत्येक के लिए) (नियमित एवं अनियमित प्रचालनों के लिए) -		1.5	2					-
1-1	1. मूल ईपीएस	0.57	9.33	(0.24)	11.44	0.33	9.14	(0.43)	11.09
1	2. तनुकृत ईपीएस:	0,56	9.10	(0.23)	11.15	0.33	8,91	(0.42)	10.81

### टिप्पणियाः

1. उपरोक्त परिणामों की 2 अगस्त, 2016 को आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठक में समीधा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 2 अगस्त, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में अनमोदित किया गया है।

2. 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए तीन माह के आंकड़े पूरे वितीय वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षत आंकड़ों के बीच संतुलित आंकड़े हैं और प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की तिमाही तक की तिथि तक के आंकडे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के अंत तक आंकड़ों की केवल समीक्षा की गई थी और यह लेखापरीक्षण के अधीन नहीं थी।

3 30 जन, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के अलेखापरीक्षत एकल और समेकित वित्तीय परिणाम कम्पनी अधिनियम, 2013 के विनियम 133 के तहत निर्धारित मारतीय लेखा मानको (इंड–एएस) के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। पूर्व में भारतीय सामान्य स्वीकार्यता लेखांकन सिद्धांती (आईजीएएपी) के तहत, 30 जून, 2017 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी को एकल वित्तीय परिणाम को प्रकाशित फरना आवश्यक नहीं था। इसके परिणामस्वरूप 30 जून, 2017 को समाप्त तिमाही के लिए आईजीएएपी एकल और समेकित वितीय परिणामों को संकलित और उन्हें तुल्यनीय बनाने के लिए बहाल किया गया है।

4 1 अप्रैल. 2018 से प्रमावी इंड एएस 115 कमपनी में संचीय कैंच-अप संक्रमण प्रणाली को अपनाया है और तदानुसार तुलनात्मक पुर्नवर्णित नही है। इंड एएस 115 के अभिग्रहण का प्रमाव भौतिक नहीं था।

Hindle Delli 308018

5 उपरोक्त परिणाम सेबी (सुवीयन बाध्यताए एवं प्रकटन आवश्यकताए) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सवेजों के पास दाखिल 30 जुन, 2018 को समाप्त तिमाही के विस्तुत प्रारूप का साराश है। 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप कमशः बीएसई एवं एनएसई स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com तथा हमारी वेबसाइट https://newgensoft.com पर निवेशक संबंध सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है।

8 इंड एएस के अनुसार वर्तमान वर्ष वर्गीकरण की पुष्ठि हेतु जहां कहीं आवश्यक हुआ पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत / पुनः समृष्टित किया गया है।

निदेशक मंडल की ओर से और उसके लिए 百./-दिवाकर निगम

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक DIN: 00263222

(रूपये लाख मे)

स्थान : नई दिल्ली टिनांक : 02.08.2018

ET

# ET Eng. Belli 3-8-18 Companies: Pursuit of Profit

# ·ket Share GCX Refinancing Risk Up as Bond gis Second Maturity Draws Closer: Moody's

### **Newgen Software Technologies Limited**

CIN: L72200DL1992PLC049074 Registered Office: A-6, Satsang Vihar Marg, Qutab Institutional Area, New Delhi - 110067 Email: investors@newgensoft.com URL: https://newgensoft.com, Tel.: (+91)-11-40770100, 11-26963571, Fax: (+91)-11-26856936 NEWGEN

### Extract of Consolidated and Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2018 Rs. in Lakhs

SL. No.	Particulars	Consolidated				Standalone			
		Quarter Ended			Year ended	Quarter Ended			Year ended
		June 30, 2018 (Unaudited)	March 31, 2018 (Audited)	June 30, 2017 (Unaudited)	March 31, 2018 (Audited)	June 30, 2018 (Unaudited)	March 31, 2018 (Audited)	June 30, 2017 (Unaudited)	March 31, 2018 (Audited)
1	Total Income from Operations	10,647.42	18,382.76	8,859.26	51,242.78	9,111.87	18,382.76	7,804.74	45,952.36
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	493.40	7,593.64	(194.36)	9,413.25	290.95	7,278.91	(344.59)	9,093.18
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	493.40	7,593.64	(194.36)	9,413.25	290.95	7,278.91	(344.59)	9,093.18
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	386.73	5,945.62	(149.66)	7,288.68	226.94	5,705.50	(270.09)	7,063.09
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	403.37	5,959.08	(118.54)	7,370.99	243.58	5,718.96	(238.97)	7,145.40
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10 each)	6,798.76	6,788.41	6,276.09	6,788.41	6,798.76	6,788.41	6,276.09	6,788.41
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		-		33,733.85		-		33,182.81
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -					hard		1	
-	1. Basic EPS:	0.57	9.33	(0.24)	11.44	0.33	9.14	(0.43)	11.09
	2. Diluted EPS:	0.56	9.10	(0.23)	11.15	0.33	8.91	(0.42)	10.81

### Notes:

1. The above financial results were reviewed by the Audit committee meeting held on 2<sup>rd</sup> August 2018 and approved by the Board of Directors in their meeting held on 2" August 2018. These results have been subjected to limited review by the statutory auditors.

2. The figures for the three months ended 31" March 2018 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the year to date figures up to preceeding quarter of the relevant financial year. The figures up to the end of the third quarter of previous financial year had only been reviewed and not subjected to audit.

3. Unaudited standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter ended 30<sup>5</sup> June 2018 are in compliance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) prescribed under section 133 of the Company Act, 2013. The company was not required to publish the standalone and consolidated financial results for the guarter ended 30<sup>6</sup> June 2017 prepared under previous Indian General Accepted Accounting Principles (IGAAP). Consequently previous IGAAP standalone and consolidated financials results for the guarter ended 30" June 2017 have been compiled and restated to make them comparable.

4. Effective 1"April 2018 the Company has adopted Ind AS 115 using cumulative catch-up transition method and accordingly comparatives have not been restated. The impact of adoption of Ind AS 115 was not material.

5. The above is an extract of the detailed format of Quarter ended 30<sup>th</sup> June 2018 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the Quarter ended 30" June 2018 are available on the websites of the Stock Exchanges of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also available under the Investor Relations section of our website https://newgensoft.com.

6. Previous period figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary, to confirm to current year's classification as per Ind AS.

For and on behalf of the Board Sd/-Diwakar Nigam **Chairman & Managing Director** DIN: 00263222

Place: New Delhi Date : 02.08.2018